

LOK SABHA DEBATES
(Part I—Questions and Answers)

Room No. 70-049

Block 'G'

Acc. No. 25491

Dated 11.10.50

109

LOK SABHA

Wednesday, 23rd November, 1955

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रूपकुण्ड में मानवीय भ्रमशोध

*६८. श्री एम० एल० द्विवेदी क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपकुण्ड झील के निकट पाये गये मानवीय भ्रमशोधों के सम्बन्ध में कोई अधिकृत सूचना मिली है ;

(ख) वहां पाये गये मानवीय भ्रमशोधों तथा अन्य वस्तुओं की जांच करने के पश्चात् कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ग) इन मानवीय भ्रमशोधों का अन्वेषण तथा जांच करने वाले पदाधिकारी कौन हैं और आजकल वे भ्रमशोध कहां रख गये हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अब भी खोज हो रही है ; यदि हां तो व किस प्रकार की है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, जी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यह मालूम हुआ है कि केवल कुछ ढांचे के भ्रमशोध जी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एक अधिकारी ने इकट्ठे किये थे अब सखनऊ विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग में हैं और उन का अध्ययन हो रहा है । भारत सरकार के मानव विज्ञान विभाग के संचालक ने श्री रूपकुण्ड जिला गणपाल के मानवीय भ्रमशोधों के बारे में कुछ जांच की है और कुछ स्थानीय जानकारी इकट्ठी की है जो रूपकुण्ड के मामले पर प्रकाश डालेगी ।

381 L.S.D.

(घ) अभी जांच पड़ताल जारी है । ढांचे के भ्रमशोधों का अभी और अध्ययन करना पड़ेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो विशेषज्ञों ने इन ढांचों के सम्बन्ध में राय दी है उस का सरकार को पता है ? अगर पता है तो क्या है ?

Dr. M. M. Das : We had asked for a report from our Director of Anthropology and he has submitted a report to us. From that report we find that the Director of Anthropology has reached the conclusion—it is a tentative conclusion—that the human remains are of a batch of pilgrims. The Director of Anthropology proposes to send a further party for further investigation.

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो जांच कराई जा रही है यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कराई जा रही है या भारत सरकार की तरफ से या दोनों की तरफ से ?

डा० एम० एम० दास : दोनों की तरफ से हो रही है ।

Nylon Ropes

*99. Shri Bahadur Singh: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether the question of using nylon ropes in addition to those of steel and coir for Naval Ships has been considered by the Indian Navy; and

(b) if so, whether nylon ropes can be usefully utilized for Naval Ships?

The Deputy Minister of Defence. (Sardar Majithia) : (a) Yes.

(b) Trials are still in progress.

Shri Bahadur Singh : May I know whether any economy can be effected by the use of these nylon ropes?

Sardar Majithia : As I said, the trials are still in progress. But I should like to add here that the cost of a coil of 120 fathoms of nylon rope of 1½ inch circumference is approximately Rs. 560, whereas the cost of the same length of Manila rope, which is manufactured indigenously in India, is about Rs. 70. So there is a lot of difference, although the cost of maintenance is very much less in the case of nylon rope.

Shri Bahadur Singh : May I know whether these nylon ropes have been used by any other country for naval purposes, or is it that only we have started using them?

Sardar Majithia : No, they are being tried in other countries as well.

Shrimati Ila Palchoudhury : Since nylon is a very highly inflammable material, what precautions are sought to be taken in that regard?

Sardar Majithia : As I said, the trials are taking place, and that aspect surely, will be duly considered.

भारत-इराक़ सांस्कृतिक करार

*१००. श्री श्री नारायण दास : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-इराक़ सांस्कृतिक करार के अनुसरण में, विद्यार्थियों का आदान-प्रदान, दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के यहां सांस्कृतिक संगठनों की स्थापना तथा पारस्परिक खेलों की प्रतियोगिता जैसी १९५५ में की गई कार्यवाहियों का व्यौरा क्या है ;

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कितना व्यय किया ; और

(ग) आगामी वर्ष का क्या कार्यक्रम है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एन० एन० दास) : (क) मार्च, अप्रैल १९५५ में भारत में एक इराकी कला प्रदर्शनी आई थी और भारत-भरब सोसाइटी, बम्बई, को अनुदान दिया गया था ।

(ख) केवल ८,००० रुपये ।

(ग) अभी नहीं बनाया गया है ।

श्री श्री नारायण दास : क्या मैं जान सकता हूँ कि यह जो सांस्कृतिक इकरारनामा हुआ था उस पर, अभी जो इराक़ और तुर्की के साथ सैनिक सन्धि हुई है, उस का कोई असर पड़ा है, और अगर असर पड़ा है तो किस रूप में ?

Dr. M. M. Das : I want notice.
Sports and Games

*१०१. **Shri V. P. Nayar :** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the Central Government have spent any amounts since 1947:

(i) for constructing gymnasias,

(ii) for constructing stadia, and

(iii) for laying sports and games, fields and courts; and

(b) if so, what is the aggregate amount spent till the 1st July, 1955?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Education (Dr. M. M. Das) : (a) (i) Yes Sir.

(ii) Yes Sir.

(iii) Yes Sir.

(b) Rs. 78967/-.

Shri V. P. Nayar : Could I know whether the Government of India have spent any amounts specifically for the purpose of constructing stadia or sports grounds and courts, either by universities for which grants are made by the Central Government or by Part C States the administration of which is directly the responsibility of the Central Government?

Dr. M. M. Das : There is a scheme known as Campus Works Projects scheme under the Youth Welfare Programme of the Government of India in the Ministry of Education. Under that scheme grants are given to the Universities and other educational institutions for the construction of stadia, swimming pools, open air theatres running tracks, cinder tracks, etc.

Shri V. P. Nayar : May I know whether in view of the fact that at present there are hardly any facilities worth the name for regular play on account of the lack of stadia, sports grounds, gymnasias and swimming pools, the Government of India have in contemplation any scheme under which there would be a large number of these to enable the younger generation to take to regular exercise in the next Five Year Plan and, if so, whether any target has been set for the expenditure to be incurred under the Second Five Year Plan on this account.